



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 313] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 1979/श्रावण 10, 1901

No. 313] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 1979/SRAVANA 10, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

गृह मन्त्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1979

का.आ. 444(अ).—केंद्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)
अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि ऐसा करना आवश्यक
है, “विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण” का गठन करती है,
जिसमें गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति एन. इंदोतम्बी सिंह
होंगे।

[फा. सं. III-14014/12/79 एन. ई. (I)]

के. बैनर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 1979

S.O. 444(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government, being of opinion that it is necessary so to do, hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice N. Iyotombi Singh, Judge of the Gauhati High Court.

[F. No. III-14014/12/79-NE(I)]

K. BANARJI, Jt. Secy.